

भारतीय उद्यमियों को अपने अनुभव के बारे में वार्ता एवं उनके द्वारा किए गए व्यावसायिक उद्यम में सफलता के कुशल नेतृत्व के लिए भारतीय मूल के अमेरिकियों के एक समूह द्वारा कौशल-विकास के विभिन्न अवयवों पर अपना ज्ञान एवं अनुभव साझा करेगा।

दिनांक 23 जनवरी, 2016 अपराह्न 03:00 बजे से मर्चेस चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं TYAG, कानपुर के संस्थापक डॉ अवध दुबे के संयुक्त तत्वाधान में “नेतृत्व उत्कृष्टता (Leadership Excellence)” पर प्रेस-कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है।

यह संवादात्मक-सत्र मर्चेस चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में माह के प्रत्येक चौथे सोमवार को 1 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसको इन्टरनेट के माध्यम से हैंगआउट सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किया जाएगा। जिसमें प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतियों को सुनने, देखने एवं बातचीत के द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे।

प्रत्येक चौथे सोमवार को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर पूर्वकथित समय (प्रातः 09:30) पर सत्र का योजन किया जाएगा, विषय इस प्रकार से है:

- | | |
|--|---|
| (1) नेतृत्व उत्कृष्टता (Leadership Excellence) | (7) रिस्क मैनेजमेंट (Risk Management) |
| (2) टीमवर्क (Teamwork) | (8) प्रतिभा प्रबंधन (Talent Management) |
| (3) समय प्रबंधन (Time Management) | (9) ग्राहक प्रबंधन (Voice of the Customer Management) |
| (4) मीटिंग मैनेजमेंट (Meeting Management) | (10) कार्य श्रेष्ठता (Operational Excellence) |
| (5) निर्णयन (Decision Making) | (11) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management) |
| (6) परियोजना प्रबंधन (Project Management) | (12) सतत परिवर्तन प्रबंधन (Sustainable Change Management) |

नेतृत्व उत्कृष्टता पर प्रथम संवादात्मक-सत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को निर्धारित समय प्रातः 09:30 बजे से 1 घंटे की अवधि के आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र सम्पूर्ण भारत के 9 बड़े शहरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें कानपुर को भी गौरव प्राप्त हुआ है।

डॉ. मनु वीरा (Business Excellence, Inc., यू.एस.ए., के अध्यक्ष, Leadership Excellence के माननीय शिक्षक एवं बी.टेक. डिग्री, आई.आई.टी.-बी.एच.यू. से, एम.एस. और पी.एच.डी. (आई.आई.टी. शिकागो से रसायन इंजीनियरिंग में) और मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए. डिग्री धारक है) दिनांक 25 जनवरी, 2016 को प्रतिभागियों से परस्पर संवादात्मक-सत्र में चर्चा करेंगे।

आयोजित की जाने वाली यह श्रृंखला छात्रों की पढ़ाई के लिए लाभदायक फायदेमंद है एवं रोजगार-क्षमता के सुधार हेतु मदद करती है। पेशेवरों की दृष्टि से यह काम के बेहतर प्रदर्शन और विकास के लिए उपयोगी है। अभी तक 1,75,000 लोग Leadership Excellence से लाभान्वित हो चुके हैं जो की भारत में 14 राज्यों के 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों एवं एन.सी.आर. में यू.ट्यूब में भी रिकॉर्ड किया गया है। यह कार्यक्रम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (M.O.O.C.) के समान ही है, जो की 2012 में प्रचलित हुआ था। यह कार्यक्रम सॉफ्ट-स्किल और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एम.ओ.ओ.सी. की पहल है।

इस कार्यक्रम में कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों सहित 3 आई.आई.टी., 2 एन.आई.आई.टी., व्यापार, प्रबंधन, कला, विज्ञान, वाणिज्य, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के एवं सरकारी संस्था (ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली) भी भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम को गैर-लाभान्वित संस्था (शिक्षा और हेल्थकेयर में), लाभान्वित संस्था (टाटा नेटवर्क फोरम जो की वेबिनार्स (webinars) का उपयोग कर रही हैं) द्वारा पूर्णरूपेण स्वीकृत एवं अपनाया गया है।

उपरोक्त सूचनाएं डॉ. आई.एम.रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, डॉ. अवध दुबे, संस्थापक, त्याग, कानपुर एवं श्री पदम् कुमार जैन, उपाध्यक्ष, मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दी गयीं ।

धन्यवाद